

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 23.01.2023

चोरी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/2023 धारा 379 भादवि0 थाना कैण्ट गोरखपुर से सम्बन्धित अभियुक्त सोभित कुमार पुत्र जेम्स निवासी कृष्णा नगर धर्मशाला थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/2023 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण- दिनांक 22/01/2023 को वादी की cycle बेतियाहाता थाना कैण्ट चौराहे के पास से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास से अभियुक्त सोभित कुमार पुत्र जेम्स निवासी कृष्णा नगर धर्मशाला थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं नशे का आदि हूँ अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए मैं चोरी जैसे अपराध करता हूँ। कल रात में मैंने अपने नशे को पूरा करने के लिए दो साइकिल चोरी की थी एक बेतियाहाता चौराहे से तथा दूसरी कैण्ट चौराहे से चोरी की थी, जिसे मैंने राह चलते आदमी को 300 रु0 में बेच दी थी और बचे पैसे से नशा कर लिया था तथा दूसरी साइकिल को बेचने के फिराक में था कि आप लोगो द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोभित कुमार पुत्र जेम्स निवासी कृष्णा नगर धर्मशाला थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 53/2023 धारा 379 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0- 54/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी- चोरी की साइकिल

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव चौकी प्रभारी बेतियाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 दीपक थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
4. कां0 आशीष यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।